

पश्चिम रेलवे द्वा नई रेलों के परिचालन की घोषणा

मुंबई। यात्रियों की सुविधा के लिए और आगामी त्योहारी सीजन के दौरान अतिरिक्त भीड़ के समायोजन के लिए, पश्चिम रेलवे ने मुंबई सेंट्रल – अहमदाबाद के बीच डबल डेकर और पोरबंदर – दिल्ली सराय रोहिल्ला के बीच एक अन्य ट्रेन सहित दो और विशेष ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी श्री सुमित ठाकुर द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार ये विशेष रेलगाड़ियाँ नीचे उल्लिखित प्रस्थान की तारीख के अनुसार, अगली सूचना तक चलेंगी। इन विशेष ट्रेनों का विवरण इस प्रकार है :-

1) ट्रेन संख्या 02931/02932 मुंबई सेंट्रल-अहमदाबाद डबल डेकर सुपरफास्ट स्पेशल [रविवार को छोड़कर दैनिक]

ट्रेन नंबर 02931 मुंबई सेंट्रल – अहमदाबाद डबल डेकर सुपरफास्ट स्पेशल 17 अक्टूबर, 2020 से रोजाना 14.20 बजे (रविवार को छोड़कर) मुंबई सेंट्रल से रवाना होगी और उसी दिन 21.40 बजे अहमदाबाद पहुंचेगी। इसी तरह, ट्रेन नंबर 02932 अहमदाबाद – मुंबई सेंट्रल डबल डेकर सुपरफास्ट स्पेशल 17 अक्टूबर, 2020 से अहमदाबाद से प्रतिदिन 06.00 बजे (रविवार को छोड़कर) प्रस्थान करेगी और उसी दिन 13.00 बजे मुंबई सेंट्रल पहुंचेगी। यह ट्रेन बोरीवली, वापी, वलसाड, नवसारी, सूरत, भरुच जंक्शन, वडोदरा जंक्शन, आणंद जंक्शन और नडियाद जं पर दोनों दिशाओं में रुकेगी। इस ट्रेन में एसी चेयर कार कोच शामिल होंगे।

2) ट्रेन संख्या 09263/ 09264 पोरबंदर – दिल्ली सराय रोहिल्ला स्पेशल एक्सप्रेस [द्वि-साप्ताहिक]

ट्रेन संख्या 09263 पोरबंदर – दिल्ली सराय रोहिल्ला विशेष 17 अक्टूबर, 2020 से प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को 16.30 बजे पोरबंदर से रवाना होगी और अगले दिन 19.35 बजे दिल्ली सराय रोहिल्ला पहुंचेगी। इसी तरह, ट्रेन नं 09264 दिल्ली सराय रोहिल्ला – पोरबंदर स्पेशल 19 अक्टूबर, 2020 से प्रत्येक सोमवार और गुरुवार को 08.20 बजे दिल्ली सराय रोहिल्ला से रवाना होगी और अगले दिन 10.35 बजे पोरबंदर पहुंचेगी। यह ट्रेन जामनगर, राजकोट, सुरेंद्रनगर, वीरमगाम, चांदलोडिया, महेसाणा, पालनपुर, आबू रोड, फालना, मारवाड़ जंक्शन, ब्यावर, अजमेर, किशनगढ़, फुलेरा, जयपुर, बांदीकुई, अलवर, खैरथल, रेवाड़ी, गुडगांव और दिल्ली कैंट स्टेशनों पर दोनों दिशाओं में रुकेगी। उपरोक्त ठहरावों के अलावा, ट्रेन नंबर 09264, पालम, गढ़ी हरसरू जंक्शन, पटौदी रोड और सेंदरा स्टेशनों पर भी रुकेगी। ट्रेन नंबर 09263 अगले दिन दोपहर 01.00 बजे चांदलोडिया पहुंचेगी, जबकि वापसी की यात्रा में ट्रेन नंबर 09264 अगले दिन 01.50 बजे चांदलोडिया पहुंचेगी। इस ट्रेन में एसी 2 टीयर, एसी 3 टीयर, स्लीपर क्लास और सेकंड क्लास सीटिंग कोच शामिल होंगे।

ट्रेन नंबर 02931, 02932 और 09263 के लिए बुकिंग 15 अक्टूबर, 2020 से नामित पीआरएस काउंटरो

और आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर खुलेगी। उपरोक्त ट्रेनें पूरी तरह से आरक्षित ट्रेनों के रूप में चलेंगी।